

黨譯中樞重要文書之五十八

軍委會發表第三次長沙會戰經過

中央組織部印  
一月

軍委會發表第三次長沙會戰經過 卅年九月九日



3 2168 6325 2

敵此次大舉進犯長沙其目的不外以牽制我策應各友邦作戰部隊之行動。以妄冀消耗我各戰場野戰軍，破壞我軍之反攻準備。三眩耀其力量，在蘇聯南侵以後，仍能繼續向我發動攻勢。四頹壓反戰分子，振奋其國內人心。五藉資蘇渡，並以掩飾第一次、二次長沙會戰之敗績。其兵力除將第二次長沙會戰遭受敗創之各部隊大事補充，仍由鄂北鄂西等地區抽調其主力或一部，至長沙一帶集結，並由山西調來一部，連原有邊據部隊，共達十餘萬人。其番號，業已廢棄者，為第三、四、六、十三、三十九、四

十等師團，第九、第十一、第十四獨立旅團等，新牆河畔前哨戰，戰端緣於二十三日拂曉，前開始，敵寇鑿於第一、二次大戰失敗之教訓，原本小心冀、冀穗、紮穩打，逐步推進，不意戰鬥週廻，並未發現我主力所在，遂將其控制部署，極積向戰場增加，迄三十日，共達十餘萬人，因中東兩路已被阻止，乃置重點於西路，於三十日分四路向南，猛犯企鵝一鼓而下長沙，我正面滌留少數部隊與敵條持接觸外，我各路大軍均已按預定計劃，分別部署，色圍網以便遂行殲滅戰，故敵於一月晨，容易竄抵長沙外圍，撈刀河濱，瀘陽河中間地區，開始進犯城郊，長沙深樹戰，我

保衛長沙城郊之第十軍將士作戰異常英勇，將敵第四師團堵擊於長沙北撈刀河。對由瀏陽強渡西岸猛犯之，敵第三師團第六師團堅強阻擊於城郊，同時我優勢砲兵屢擣敵火力，向暮集隊形之敵猛轟，至敵以慘重打擊，其死於砲火下者，不知凡幾，並有高級敵首數人。二日晨我外線各路大軍即一齊向敵圍擊，逐漸壓縮其圍圈，截至同日晚，斃傷敵已達一萬五千餘人，故仍作固戰鬥。三日午前將第四十師團主力轉移而犯長沙南郊，本日計向瀏陽門、小吳門衝鋒者各二次，均被擊退，犯經武門者三次，被我殲滅盡半，尤以犯妙高峯者最為慘烈，其隸隊長手

持幡係旗，督率衆衆，三次衝鋒，均為我英勇將士將其悉數殲滅。綜合本日斃傷敵約六七千人，我外線各路大軍已於同日逼近敵主力而補給錢又為我截斷，陷於我色園圍之敵，其命運已踏上悲慘之途。三日難以飛機輸送糧彈，杯水車薪，終無濟於事。惟遙其獸性在城郊投燒夷彈以圖報復而已。四日晨我軍遂展開殲滅戰，外線各路大軍，一齊猛攻，尤以南路行進最速，已達敵巢左翼之背邊，敵勢不支，乃抽調犯我南面之敵增援我守城部隊，遂乘機反攻，而增援之敵又為我神勇絕兵將其擊潰。至午後三時，東北兩郊敵亦為我擊潰，至是敵全部動搖，一齊

向東北急竄企圖強渡濁陽河。楊刀河殊不料各渡口已為我大軍堵塞，並由我岸砲施矣。指確射擊對於廣集被岸之敵不斷給予悲慘之打擊。我追擊與堵截，敵更多以猛烈痛擊。本日又斃傷敵一萬餘，至五日晨將敵擊滅七零八落，每股千餘人數百人不等，到處亂竄。復為我加緊聚殲，迄晚又死傷六七千，尤以磨盆溝一帶橫尾可以斷流。是晚天雨，敵遂乘機奔不顧一切，亡命泅渡，莫能逃出羅網，雖傍邊楊刀河北岸，隨入為我包圍於今井、楊家溝、濁陽以南地區，繼續予以痛殲。刻傍刀河南，已無敵踪，正掃蕩戰場，撫屍於云中，其逃過楊刀河之敵，亦被我一、二日內

不難將其全部解決。我軍於三十一年五月，我軍第三次長沙會戰大捷，即係我對後擾，宣戰之首次全面的勝利。吾人於慶祝鼓舞之後，須以忠誠的態度，忠告統戰健兒，全國同胞，戰勝不驕，繼續列苦奮鬥，與各友邦互相策應，以打擊此共同敵人，直至後擾的謀寇完全崩潰之日為止。



महाराजा

महाराजा विक्रम सेना ने अपनी राजधानी  
को बदल कर एक दूसरी राजधानी बनायी। उसका  
नाम विक्रमाचाल था। विक्रमाचाल का नाम  
विक्रमाचाल था। विक्रमाचाल का नाम  
विक्रमाचाल था। विक्रमाचाल का नाम  
विक्रमाचाल था। विक्रमाचाल का नाम















द्वितीय अवधि के दौरान यह विषय बहुत लोकों के जीवन में एक बड़ा भूमिका निभाता रहा। इसके अलावा यह विषय अपनी विशेषताओं के कारण विभिन्न विषयों के साथ जुड़ा हुआ रहा।







وَلِمَنْجَلَةِ الْمُكَبَّلَةِ وَلِمَنْجَلَةِ الْمُكَبَّلَةِ وَلِمَنْجَلَةِ الْمُكَبَّلَةِ  
وَلِمَنْجَلَةِ الْمُكَبَّلَةِ وَلِمَنْجَلَةِ الْمُكَبَّلَةِ وَلِمَنْجَلَةِ الْمُكَبَّلَةِ وَلِمَنْجَلَةِ الْمُكَبَّلَةِ  
وَلِمَنْجَلَةِ الْمُكَبَّلَةِ وَلِمَنْجَلَةِ الْمُكَبَّلَةِ وَلِمَنْجَلَةِ الْمُكَبَّلَةِ وَلِمَنْجَلَةِ الْمُكَبَّلَةِ



وَالْمُؤْمِنُونَ لِلَّهِ وَرَبِّهِمْ وَلَا يُشَرِّكُونَ



وَالْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنَاتُ وَالْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنَاتُ

• *Chionanthus virginicus* • *Chionanthus reticulatus* • *Chionanthus luteus* • *Chionanthus*

महाराजा देवराम के निवास स्थान पर बना दिया गया।

କାନ୍ତିର ପାଦରେ ଯାଏନ୍ତିର ପାଦରେ ଯାଏନ୍ତିର ପାଦରେ

وَلِلْمُؤْمِنِينَ الْمُكَفَّرُونَ لِمَنْ يَرِدُونَ

此卷之文皆出其手。其子子思、子瞻、子瞻之子子瞻，皆有文名。

مَدْعَوْنَ - لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْكَنِ - لِلْمُؤْمِنِينَ

میں سارے ہیں۔ کچھ بخوبی ملے رہے گا۔ ملک بخوبی سمجھ لے گا۔

وَلِمَنْهُ مُلْكٌ لَّمْ يَرِدْ مُلْكَهُ وَلِفَرْجٍ مُّفْرِجٍ لَّمْ يَرِدْ مُفْرِجَهُ .

त्रिवेदी विजयनाथ द्वारा लिखित अस्ति शब्दों का अर्थ है-



لِكُلِّ مَنْ يَرِدُ عَلَيْهِ الْمُؤْمِنُونَ إِنَّمَا يَنْهَا  
الْمُشْرِكُونَ لِأَنَّهُمْ لَا يُنْهَا وَمَا يَنْهَا  
لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَمَا يُؤْمِنُ بِهَا لَا يُنْهَا

and the same time you will be able to see  
the whole of the village.

After you have seen the village  
you will be able to go back

to your boat and get into it again.